



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 6]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 6 फरवरी 2015—माघ 17, शक 1936

### विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश,  
(3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं,  
(4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश  
और अधिसूचनाएं, (6) निवाचन आयोग, भारत की  
अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट।

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं।

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,  
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं।

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,  
(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,  
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,  
(3) संसद् के अधिनियम,  
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम।

## भाग १

### राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 जनवरी 2015

क्र. ई.-5-807-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्री के. पी. राही, आयएएस., अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा को दिनांक 19 से 30 जनवरी 2015 तक बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री के. पी. राही को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री के. पी. राही को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. पी. राही अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई.-5-845-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्री के. सी. जैन, आयएएस., अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग को दिनांक 19 से 31 जनवरी 2015 तक कुल तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 17, 18 जनवरी 2015 एवं दिनांक 1 फरवरी 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री के. सी. जैन को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री के. सी. जैन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. सी. जैन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 19 जनवरी 2015

क्र. ई.-5-684-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्री अमित राठौर, आयएएस., आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इन्दौर को समसंख्यक आदेश दिनांक 16 दिसम्बर 2014 द्वारा दिनांक 26 दिसम्बर 2014 से 3 जनवरी 2015 तक नौ दिन का अर्जित अवकाश, दिनांक 25 दिसम्बर 2014 से 4 जनवरी 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति के साथ स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 26 दिसम्बर 2014 से दिनांक 9 जनवरी 2015 तक पन्द्रह दिन का पुनरीक्षित अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) शेष केंद्रिकाएं समसंख्यक आदेश दिनांक 16 दिसम्बर 2014 द्वारा अनुसार यथावत्.

क्र. ई.-5-814-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्रीमती उर्मिल मिश्रा, आयएएस., विकअ-सह-सचिव, मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग, भोपाल को दिनांक 3 से 6 जनवरी 2015 तक चार दिन का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाशकाल में श्रीमती उर्मिल मिश्रा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती उर्मिल मिश्रा अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

भोपाल, दिनांक 20 जनवरी 2015

क्र. ई.-5-486-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्री विनोद चन्द्र सेमवाल, आयएएस., राज्यपाल के प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश को दिनांक 27 से 31 जनवरी 2015 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 1 फरवरी 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री विनोद चन्द्र सेमवाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन राज्यपाल के प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री विनोद चन्द्र सेमवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विनोद चन्द्र सेमवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 21 जनवरी 2015

क्र. ई.-5-911-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) सुश्री अनुग्रह पी., आयएएस., अनुविभागीय अधिकारी, बैरसिया (भोपाल) को दिनांक 24 जनवरी से 13 फरवरी 2015 तक इक्कीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 14 एवं 15 फरवरी 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर सुश्री अनुग्रह पी. को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन अनुविभागीय अधिकारी, बैरसिया (भोपाल) के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में सुश्री अनुग्रह पी. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री अनुग्रह पी. अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

भोपाल, दिनांक 22 जनवरी 2015

क्र. ई.-5-565-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्रीमती गौरी सिंह, आयएएस., प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम तथा विकअ-सह-आयुक्त, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विकास, भोपाल को दिनांक 19 से 24 जनवरी 2015 तक छः दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती गौरी सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम तथा विकअ-सह-आयुक्त, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विकास, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती गौरी सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती गौरी सिंह अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अंटोनी डिसा, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 14 जनवरी 2015

क्र. ई.-5-793-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) डॉ. संजय गोयल, आयएएस., कलेक्टर, जिला रत्नाम को समसंख्यक आदेश

दिनांक 3 सितम्बर 2014 द्वारा दिनांक 25 से 30 सितम्बर 2014 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है, में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 25 से 28 सितम्बर 2014 तक चार दिन का पुनरीक्षित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) समसंख्यक आदेश दिनांक 3 सितम्बर 2014 को शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.

भोपाल, दिनांक 15 जनवरी 2015

क्र. ई.-5-416-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्री के. सुरेश, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग तथा साप्रवि (मानव अधिकार) को समसंख्यक आदेश दिनांक 19 दिसम्बर 2014 द्वारा दिनांक 17 दिसम्बर 2014 से 3 जनवरी 2015 तक अठारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है, में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 17 दिसम्बर 2014 से 2 जनवरी 2015 तक सत्रह दिन का पुनरीक्षित अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) समसंख्यक आदेश दिनांक 19 दिसम्बर 2014 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.

भोपाल, दिनांक 20 जनवरी 2015

क्र. ई.-5-954-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्री अशोक कुमार शर्मा, आयएएस., उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग को समसंख्यक आदेश दिनांक 8 जनवरी 2015 द्वारा दिनांक 29 दिसम्बर 2014 से 4 जनवरी 2015 तक सात दिन का संशोधित अर्जित अवकाश दिनांक 28 दिसम्बर 2014 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति के साथ स्वीकृत किया गया है, में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 29 दिसम्बर 2014 से 3 जनवरी 2015 तक छः दिन का अर्जित अवकाश, दिनांक 28 दिसम्बर 2014 एवं 4 जनवरी 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति के साथ कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) समसंख्यक आदेश दिनांक 8 जनवरी 2015 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.

भोपाल, दिनांक 22 जनवरी 2015

क्र. ई.-5-781-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्री आर. के. माथुर, आयएएस., कमिशनर, सागर संभाग, सागर को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 9 अक्टूबर 2014 द्वारा दिनांक 26 दिसम्बर 2014 से 6 जनवरी 2015 तक बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 26 दिसम्बर 2014 से 3 जनवरी 2015 तक नौ दिन का अर्जित अवकाश दिनांक 4 जनवरी 2015 के सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति के साथ स्वीकृत किया जाता है.

(2) समसंख्यक आदेश दिनांक 9 अक्टूबर 2014 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
फजल मोहम्मद, अवर सचिव “कार्मिक”.

## विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 18 दिसम्बर 2014

फा. क्र. 17(ई)-83-03-इकीस-ब (एक)-3924-2014.—विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का संख्यांक 36) की धारा 153 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना एफ. क्रमांक 17(ई)-83-03-इकीस-ब(एक), दिनांक 16 सितम्बर 2010 में, जो कि मध्यप्रदेश राजपत्र भाग 1 में दिनांक 24 सितम्बर 2010 में प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है:—

### संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 65 तथा 111 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं,—

### सारणी

अनु- क्रमांक	सिविल जिले का नाम	विशेष न्यायालय का नाम	विशेष न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता (विद्युत क्षेत्र के अनुसार)
(1)	(2)	(3)	(4)
65	नरसिंहपुर	तृतीय अपर सेशन न्यायाधीश, गाडरवाड़ा	गाडरवाड़ा एवं तेनुखेड़ा का विद्युत क्षेत्र.
111	मण्डलेश्वर	चतुर्थ अपर सेशन न्यायाधीश, खरगोन.	खरगोन तथा भीकनगांव का विद्युत क्षेत्र.

टिप्पणी.—विशेष न्यायालय में लंबित मामले उनकी क्षेत्रीय अधिकारिता के अनुसार नवीन गठित न्यायालय में अंतरित हो जायेंगे.

F. No. 17(E) 83-03-XXI-B(1)-3924-2014.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 153 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), the State Government, with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh, hereby makes the following further amendments in this Department's Notification F. No. 17(E) 83-03-XXI-B(1), dated 16th September, 2010 which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part-I dated 24th September 2010 namely:—

#### AMENDMENT

In the said Notification, in the table for serial numbers 65 & 111 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

TABLE

S. No.	Name of Civil District	Name of Special Court	Territorial Jurisdiction of the Special Court (According to Electricity Area)
(1)	(2)	(3)	(4)
65	Narsinghpur	IIIrd Additional Sessions Judge Gadarwara.	Electricity area of Gadarwara & Tehdukheda.
111	Mandleshwar	IVth Additional Sessions Judge Khargone.	Electricity area of Khargone and Bhikangaon.

**Note.**—The pending cases of the Special Court shall be stand transferred to newly constited court according to their territorial jurisdiction.

फा. क्र. 17(ई)-83-03-इकोस-ब (एक)-3924-2014.—विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 153 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17(ई)-83-03-इकोस-ब(एक), दिनांक 16 सितम्बर 2010 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 में दिनांक 24 सितम्बर 2010 में प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है:—

#### संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 65 तथा 111 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित

अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं अर्थात् :—

#### सारणी

अनु- क्रमांक	सिविल जिले का नाम	विशेष न्यायालय का नाम	विशेष न्यायालय के न्यायाधीश का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
65	नरसिंहपुर	तृतीय अपर सेशन न्यायाधीश, गाडरवारा.	कु. प्रतिभा साठवाणे, न्यायाधीश, गाडरवारा.
111	मण्डलेश्वर	चतुर्थ अपर सेशन न्यायाधीश, खरगोन.	श्री एन. एस. डावर, चतुर्थ अपर सेशन न्यायाधीश, खरगोन.

F. No. 17(E) 83-03-XXI-B(1)-3924-2014.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 153 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), the State Government, with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh, hereby makes the following further amendments in this Department's Notification F. No. 17(E) 83-03-XXI-B(1), dated 16th September, 2010 which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part I dated 24th September 2010 namely:—

#### AMENDMENTS

In the said Notification, in the table for serial number 65 & 111 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

TABLE

S. No.	Name of Civil District	Name of Special Court	Name of the Judge of Special Court
(1)	(2)	(3)	(4)
65	Narsinghpur	IIIrd Additional Sessions Judge Gadarwara.	Ku. Pratibha Sathwane, IIIrd Additional Sessions Judge, Gadarwara.
111	Mandleshwar	IVth Additional Sessions Judge Khargone	Shri N. S. Dawai, IVth Additional Sessions Judge, Khargone.

#### शुद्धि-पत्र

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2014

फा. क्र. 17(ई)-43-2009-इकोस-ब (एक)-3773-014.—राज्य शासन, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 8 अगस्त 2014

में जो कि मध्यप्रदेश राजपत्र भाग 1 दिनांक 15 अगस्त 2014 में प्रकाशित की गई थी, में सुद्धि-पत्र जारी करता है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में, सारणी में क्रमांक 4 के सामने कालम (2) में, विद्यमान न्यायाधिकारी का नाम “श्री दीपक कावडे” स्थान पर “श्री दीपराज कवडे” पढ़ा जाए.

### CORRIGENDUM

F. No. 17(E) 43-2009-XXI-B(1)-3773-014.—The State Government issue corrigendum of this department's Notification of even number dated 8th August 2014, which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part 1, dated 15th August 2014, namely:—

In the said Notification in the table, in column No. (2) against serial No. 4, for existing name of Nyayadhisthani “Shri Deepak Kawde”, read the name “Shri Deepraj Kawde.”.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
विरेन्द्र सिंह, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 23 जनवरी 2015

फा. क्र. 1(बी)-01-2012-इक्कीस-ब(दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, श्री जगदीश चन्द्र गुप्ता पुत्र श्री रमणलालजी गुप्ता, अधिवक्ता, जिला अलीराजपुर को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये अलीराजपुर सत्र खण्ड के अलीराजपुर राजस्व के लिए एतद्वारा, शासकीय अभिभाषक/ लोक अभियोजक, नियुक्त करता है. यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय उन्हें कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है.

फा. क्र. 1(बी)-01-2012-इक्कीस-ब(दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, श्री विजय कुमार गेहलोत पुत्र स्व. श्री गणपत सिंह गेहलोत, अधिवक्ता, जिला अलीराजपुर को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये अलीराजपुर सत्र खण्ड के अलीराजपुर राजस्व के लिए एतद्वारा, अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/ अतिरिक्त लोक अभियोजक, नियुक्त करता है. यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय उन्हें कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है.

फा. क्र. 1(बी)-01-2012-इक्कीस-ब(दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, श्री रजनीश वाणी पुत्र श्री रसिकलाल वाणी, अधिवक्ता, तहसील जोबट, जिला अलीराजपुर को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये अलीराजपुर सत्र खण्ड के अलीराजपुर राजस्व जिले के लिए एतद्वारा, अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/ अतिरिक्त लोक अभियोजक, नियुक्त करता है. यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय उन्हें कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है.

फा. क्र. 1(बी)-13-2014-इक्कीस-ब(दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, श्री विवेक शर्मा पुत्र श्री रघुनंदन शर्मा, अधिवक्ता, जिला शाजापुर को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये जिला शाजापुर सत्र खण्ड शाजापुर राजस्व जिले के लिए एतद्वारा, शासकीय अभिभाषक/ लोक अभियोजक, जिला शाजापुर नियुक्त करता है. यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय उन्हें कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है.

फा. क्र. 1(बी)-01-2005-इक्कीस-ब(दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, शासकीय अभिभाषक/ लोक अभियोजक/ अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/ अतिरिक्त लोक अभियोजक के पद पर उनके नाम के सामने दर्शाये अनुसार उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये सागर सत्र खण्ड के सागर राजस्व के लिये एतद्वारा, नियुक्त करता है. यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय उन्हें कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है:—

क्रमांक	नाम	पद
(1)	(2)	(3)
1	श्री राजेश त्रिवेदी	शासकीय अभिभाषक/ लोक अभियोजक, सागर.
2	श्री रामनारायण यादव	अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/ अतिरिक्त लोक अभियोजक, सागर.
3	श्री एम. डी. अवस्थी	अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/ अतिरिक्त लोक अभियोजक, सागर.

(1)	(2)	(3)
4	श्री पूरन लाल लारिया	अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/ अतिरिक्त लोक अभियोजक, सागर.
5	श्री रविकांत सर्वाफ	अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/ अतिरिक्त लोक अभियोजक, सागर.
6	श्री जी. एस. ठाकुर	अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/ अतिरिक्त लोक अभियोजक, सागर.
7	श्री उमेश कुमार पाण्डेय	अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/ अतिरिक्त लोक अभियोजक, सागर.
8	श्री बलवीर सिंह ठाकुर	अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/ अतिरिक्त लोक अभियोजक, तहसील खुरई, जिला सागर हेतु.
9	श्री पुरुषोत्तमल लाल रावत	अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/ अतिरिक्त लोक अभियोजक, तहसील रहली, जिला सागर हेतु.

फा. क्र. 1(बी)-13-2014-इक्कीस-ब(दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, श्री सुनील विश्वकर्मा पुत्र श्री दामोदर विश्वकर्मा अधिवक्ता, जिला शाजापुर को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये जिला शाजापुर सत्र खण्ड शाजापुर राजस्व जिले के लिये एतदद्वारा, अति. शासकीय अभिभाषक/ अति. लोक अभियोजक, जिला शाजापुर नियुक्त करता है। यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय उन्हें कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है।

भोपाल, दिनांक 24 जनवरी 2015

फा. क्र. 1(सी)-02-2012-एट्रोसिटीज-इक्कीस-ब(दो), 2012.—राज्य शासन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 14 के अनुसार विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय के लिये अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत सुश्री मीरा राय, अधिवक्ता, छिन्दवाड़ा को जिला छिन्दवाड़ा में विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है।

उक्त नियुक्ति सुश्री मीरा राय द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष के लिये होगी। यह नियुक्ति बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है। किसी भी स्थिति में 62 वर्ष की आयु के पश्चात् वे उक्त पद पर कार्य करने हेतु अर्ह नहीं होगी।

सुश्री मीरा राय, अधिवक्ता, छिन्दवाड़ा को शुल्क आदि विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 1(सी) एट्रोसिटी-इक्कीस-ब (दो), दिनांक 3 नवम्बर 2014 के अनुरूप देय होंगे एवं इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 64-मुख्य शीर्ष-2225-(5171) विशेष न्यायालयों की स्थापना-31-व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां-003-अभिभाषकों को फीस के अन्तर्गत विकलनीय होगा। जिसका भुगतान उक्त शीर्ष से संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जायेगा।

फा. क्र. 1(सी)-01-2015-एट्रोसिटीज-इक्कीस-ब(दो), 2015.—राज्य शासन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 14 के अनुसार विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय के लिये अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत श्री दुर्गेन्द्र सिंह भदौरिया, अधिवक्ता, जिला अनूपपुर को जिला अनूपपुर में विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है।

उक्त नियुक्ति श्री दुर्गेन्द्र सिंह भदौरिया द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष के लिये होगी। यह नियुक्ति बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है। किसी भी स्थिति में 62 वर्ष की आयु के पश्चात् वे उक्त पद पर कार्य करने हेतु अर्ह नहीं होंगे।

श्री दुर्गेन्द्र सिंह भदौरिया, अधिवक्ता, अनूपपुर को शुल्क आदि विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 1(सी) एट्रोसिटी-इक्कीस-ब (दो), दिनांक 3 नवम्बर 2014 के अनुरूप देय होंगे एवं इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 64-मुख्य शीर्ष-2225-(5171) विशेष न्यायालयों की स्थापना-31-व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां-003-अभिभाषकों को फीस के अन्तर्गत विकलनीय होगा। भुगतान उक्त शीर्ष से संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जायेगा।

भोपाल, दिनांक 27 जनवरी 2015

फा. क्र. 1(बी)-31-2004-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, श्रीमती ज्योति तोमर, अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/ अति. लोक अभियोजक, जिला इन्दौर का त्याग-पत्र दिनांक 5 जनवरी 2015 से एतदद्वारा स्वीकार करता है।

भोपाल, दिनांक 28 जनवरी 2015

फा. क्र. 1(बी)-2-2013-इक्कीस-ब(दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, श्री राम नरेश त्रिपाठी पुत्र श्री अयोध्या प्रसाद त्रिपाठी अधिवक्ता, जिला अनूपपुर को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये जिला अनूपपुर सत्र खण्ड अनूपपुर राजस्व जिले के लिये एतदद्वारा, अति. शासकीय अभिभाषक/ अति. लोक अभियोजक, जिला अनूपपुर नियुक्त करता है। यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय उन्हें कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अमिताभ मिश्र, अपर सचिव,

## जेल विभाग

मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 जनवरी 2015

क्र. एफ-19-02-2013-तीन-जेल.—राज्य शासन इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-3-118-91-तीन-जेल, दिनांक 22 अगस्त 1992 जिसके द्वारा कारागार अधिनियम, 1894 (1894 का संख्यांक 9) की धारा 59(8) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, पुरानी केन्द्रीय जेल भोपाल को दिनांक 22 अगस्त 1992 से जिला जेल, द्वितीय श्रेणी, भोपाल में वर्गीकृत किया गया था, को दिनांक 25 जनवरी 2015 से दिनांक 25 फरवरी 2015 तक की अवधि के लिए स्थगित रखता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
दशरथ कुमार, उपसचिव.

## गृह विभाग

मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 जनवरी 2015

क्र. एफ 1(ए) 274-86-ब-2-दो.—श्री के. एल. मीणा, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, (विशेष अभियान), पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 22 से 27 दिसम्बर 2014 तक कुल छः दिवस अर्जित अवकाश अवधि में खण्ड वर्ष 2014-17 के प्रथम ब्लाक वर्ष 2014-15 में गृह नगर अवकाश यात्रा के तहत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अलवर (राजस्थान) जाने की कार्योंतर स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

- |                      |         |
|----------------------|---------|
| 1. श्री के. एल. मीणा | — स्वयं |
| 2. श्रीमती कमला मीणा | — पत्नी |
| 3. श्री अजीत मीणा    | — पुत्र |

(2) उक्त यात्रा हेतु श्री के. एल. मीणा, भापुसे, को दस दिवस के अवकाश नगदीकरण/समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेंगे।

भोपाल, दिनांक 28 जनवरी 2015

क्र. एफ 1(ए) 99-08-ब-2-दो.—राज्य के समसंख्यक आदेश दिनांक 31 दिसम्बर 2014 को निरस्त करते हुए श्री आर. एस. कौल, भापुसे, सहायक महानिरीक्षक, सामुदायिक पुलिसिंग, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को पुलिस मुख्यालय के आदेश क्र. पुमु-1-भापुसे-266-2015, दिनांक 24 जनवरी 2015 द्वारा स्वीकृत दिनांक 27 जनवरी से 01 फरवरी 2015 तक कुल छः दिवस अर्जित अवकाश अवधि

में खण्ड वर्ष 2014-17 के प्रथम ब्लाक वर्ष 2015 में गृह नगर अवकाश यात्रा के बदले में भारत भ्रमण की अवकाश यात्रा के तहत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ तिरुअनंतपुरम (केरल) जाने की अनुमति प्रदान की जाती है:—

- |                      |          |
|----------------------|----------|
| 1. श्री आर. एस. कौल  | — स्वयं  |
| 2. श्रीमती अनिता कौल | — पत्नी  |
| 3. श्री दुष्यंत कौल  | — पुत्र  |
| 4. श्री ऋतिक कौल     | — पुत्र  |
| 5. श्रीमती रत्न देवी | — माताजी |

(2) उक्त यात्रा हेतु श्री आर. एस. कौल, भापुसे, को दस दिवस के अवकाश नगदीकरण/समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेंगे।

क्र. एफ 1(ए) 77-2003-ब-2-दो.—डॉ. आशा माथुर, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक (प्रबंध), पुलिस मुख्यालय भोपाल को दिनांक 27 जनवरी से 2 फरवरी 2015 तक कुल सात दिवस अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुए उक्त अवकाश अवधि में खण्डवर्ष 2014-17 के प्रथम ब्लाक वर्ष 2014-15 के वर्ष 2015 में गृह नगर यात्रा के बदले में भारत भ्रमण यात्रा की पात्रता के तहत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ गोवा की अवकाश यात्रा पर जाने की अनुमति प्रदान की जाती है:—

- |                            |         |
|----------------------------|---------|
| 1. डॉ. आशा माथुर           | — स्वयं |
| 2. श्री प्रवीण कुमार माथुर | — पति   |
| 3. श्री रजत माथुर          | — पुत्र |

(2) उक्त अवकाश अवधि में इनका कार्य श्री रवि गुप्ता, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक (योजना), पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा अतिरिक्त रूप से अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर डॉ. आशा माथुर, भापुसे, को अस्थायी रूप से आगमी आदेश तक स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक (प्रबंध), पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) अवकाशकाल में डॉ. आशा माथुर, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(5) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. आशा माथुर, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ 1(ए) 93-99-ब-2-दो.—श्री डी श्रीनिवास वर्मा, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, भोपाल (शहर) को दिनांक 17 से

20 जनवरी 2015 तक चार दिवस का अर्जित अवकाश (एक्स इंडिया लीव) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री डी. श्रीनिवास वर्मा, भापुसे, को अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस उपमहानिरीक्षक, भोपाल (शहर) के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाश काल में श्री डी. श्रीनिवास वर्मा, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. श्रीनिवास वर्मा, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ 1(ए) 77-2009-ब-2-दो.—श्री शियास ए., भापुसे, सेनानी, 23वीं वाहिनी, विसबल, भोपाल को दिनांक 2 से 13 फरवरी 2015 तक बारह दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 1, 14 एवं 15 फरवरी 2015 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ पुलिस मुख्यालय द्वारा स्वीकृत अवकाश अवधि में खण्ड वर्ष 2014-17 के II पार्ट वर्ष 2014-15 में अकेले (स्वयं) गृहनगर एनाकुलम (केरल) जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा की अनुमति प्रदान की जाती है।

क्र. एफ 1(ए) 126-2011-ब-2-दो.—श्री रूडोल्फ अल्वारेज, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, नीमच को पुलिस मुख्यालय दि. 22 अगस्त 2014 द्वारा दिनांक 25 फरवरी से 7 मार्च 2015 तक ग्यारह दिवस स्वीकृत अर्जित अवकाश अवधि में खण्डवर्ष 2014-17 के प्रथम पार्ट वर्ष 2014-15 में द्वितीय बार परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ गृह नगर तमिलनाडु जाने की अवकाश यात्रा सुविधा की अनुमति प्रदान की जाती है:—

- |                          |          |
|--------------------------|----------|
| 1. श्री रूडोल्फ अल्वारेज | — स्वयं  |
| 2. श्रीमती अस्विन ग्रेस  | — पत्नी  |
| 3. कु. न्योराह अल्वारेज  | — पुत्री |

क्र. एफ 1(ए) 74-03-ब-2-दो.—श्री पी. के. माथुर, भापुसे,, पुलिस महानिरीक्षक एस.सी.आर. बी., पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 27 जनवरी से 2 फरवरी 2015 तक सात दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 25, 26 जनवरी 2015 एवं 3 फरवरी 2015 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्री पी. के. माथुर, भापुसे की अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री विनीत जैन, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, राज्य अपराध अभिलेख व्यारो, पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री पी. के. माथुर, भापुसे,, को अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक एस.सी.आर.बी. पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री पी. के. माथुर, भापुसे, द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वेच्छ अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री पी. के. माथुर, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पी. के. माथुर, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बसंत प्रताप सिंह, प्रमुख सचिव।

### कार्यालय, कलेक्टर जिला रत्लाम, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रत्लाम, दिनांक 14 जनवरी 2015

क्र. 128.—मध्यप्रदेश, भू-राजस्व संहिता, 1959 (संख्या 20, 1959) की धारा 2(1) की उपधारा (य-5) तथा धारा 67, 68, 107 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा नीचे दर्शाए अनुसूची में स्तम्भ (1) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ (2) में दर्शित नाम से तहसील सैलाना जिला रत्लाम के ग्राम सैलाना, प.ह.नं. 26 की गुमशुदा नक्शा शीट नम्बर-3 का पुर्णनिर्माण करने हेतु अधीक्षक भू-अभिलेख नियमित को प्राधिकृत किया जाता है:—

#### अनुसूची

भू-भाग का विवरण (मूल ग्राम का नाम व पटवारी हल्का नम्बर)	तहसील सैलाना के ग्राम सैलना की गुमशुदा शीट नम्बर-3 का पुर्णनिर्माण
(1)	(2)

सैलाना, प.ह.नं. 26	सर्वे नम्बर 525 से 692 तक एवं सर्वे नम्बर 721 से 764 तक तथा सर्वे नम्बर 808 से 873 तक की नक्शा शीट पुर्णनिर्माण बाबत्,
--------------------	---

संजय गोयल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

**सामान्य प्रशासन विभाग**  
**मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल**  
**भोपाल, दिनांक 16 जनवरी 2015**

क्र. एफ-३-१-२०१४-एक-४.—राज्य शासन एतद्वारा संलग्न परिशिष्ट-एक में दर्शाये गये त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2014-15 हेतु मतदान दिनांक 19 फरवरी 2015 गुरुवार को जिले

के संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों के लिये सामान्य अवकाश तथा परक्राम्य लिखित अधिनियम (निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट्स एक्ट) 1881 (1881 का क्रमांक 26) की धारा 25 के अन्तर्गत सार्वजनिक अवकाश घोषित करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**अमिताभ अवस्थी, उपसचिव.**

**मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग**  
**“निर्वाचन भवन”**  
**58, अरेरा हिल्स, भोपाल (म. प्र.)-462011**

भोपाल, दिनांक 5 जनवरी 2015

क्र. एफ-४२-०७-२०१४-तीन-६५.—मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जिला ग्वालियर के विकासखण्ड डबरा में स्थित जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक-०७, जनपद पंचायत डबरा के वार्ड क्रमांक १३ एवं जनपद पंचायत डबरा की नवगठित ग्राम पंचायत चेतूपाड़ा तथा अरूसी एवं जिला सतना के विकासखण्ड मैहर के अन्तर्गत आने वाली ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत के लिए आम निर्वाचन 2014-15 हेतु निर्वाचन कार्यक्रम दिनांक २९ दिसम्बर 2014 को जारी किया गया है, जिसकी प्रति संलग्न है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मतदान दिनांक 19 फरवरी 2015 को होगा:—

- (१) त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन, 2014-15 हेतु जहां निर्वाचन सम्पन्न होना है, संबंधित पंचायतों एवं निर्वाचन क्षेत्रों में निवास करने वाले शासकीय/ अर्द्ध शासकीय / शासकीय निगमों के कर्मचारियों / अधिकारियों को सामान्य अवकाश तथा “परक्राम्य लिखित अधिनियम (निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट्स एक्ट) 1881 (1881 का क्रमांक 26) की धारा 25 के अन्तर्गत” मतदान के दिन जिलों के संबंधित क्षेत्रों में एक दिन का सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाए।
- (२) अतएव अनुरोध है कि इस संबंध में कलेक्टर, ग्वालियर एवं सतना को उपयुक्त निर्देश प्रसारित करने का कष्ट करें। कृपया जारी किये गये निर्देश की प्रति आयोग को भी भेजने का कष्ट करें।

संलग्न.—उपरोक्तानुसार।

**दीपक सक्सेना, उपसचिव।**

भोपाल दिनांक 29 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-३७-०३-२०१४-तीन-२०१८.—(१) आयोग के संदर्भित पत्रों द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन वर्ष 2014-15 हेतु निर्वाचन कार्यक्रम/ चरणों का निर्धारण कर जनपद पंचायत सदस्य तथा जिला पंचायत सदस्य के लिए मतों का सारणीकरण और निर्वाचन परिणामों की घोषणा के संबंध में निर्देश जारी किये गये हैं।

(२) जिला ग्वालियर के विकासखण्ड डबरा की नवगठित ग्राम पंचायत अरूसी एवं चेतूपाड़ा तथा जिला सतना की विकासखण्ड मैहर की नवगठित ग्राम पंचायत जीतनगर, डांडी, बरही एवं करईया बिजुरिया की मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन नहीं होने के कारण उन्हें आयोग द्वारा पूर्व में जारी निर्वाचन कार्यक्रम में शामिल नहीं किया गया था। अब जिला ग्वालियर एवं सतना द्वारा उक्त नवगठित ग्राम पंचायत की मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की जानकारी आयोग को उपलब्ध करा दी गयी है। अतः आयोग द्वारा जिला ग्वालियर के विकासखण्ड डबरा में स्थित जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक-०७, जनपद पंचायत डबरा के वार्ड क्रमांक १३ एवं जनपद पंचायत डबरा की नवगठित ग्राम पंचायत चेतूपांडा तथा अरूसी एवं जिला सतना के विकासखण्ड मैहर के अन्तर्गत आने वाली ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत के लिए आम निर्वाचन 2014-15 हेतु कार्यक्रम निर्धारित किया गया है जो परिशिष्ट-एक पर संलग्न है।

(3) संदर्भित पत्रों द्वारा जारी शेष निर्देश यथावत् प्रभावशील रहेंगे।

(4) निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित ग्राम पंचायत/ निर्वाचन क्षेत्र/ वार्ड के क्षेत्र में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गयी है, जो निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि तक प्रभावशील रहेगी।

(5) कृपया इस पत्र की प्राप्ति की अभि-स्वीकृति फैक्स/ ई-मेल द्वारा भेजी जाए।

संलग्न.—परिशिष्ट-एक.

दीपक सक्सेना, उपसचिव।

भोपाल, दिनांक 29 दिसम्बर 2014।

### आदेश

क्र. एफ-37-03-2014-तीन-2017.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 42 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा धारा 9(2)(क) एवं मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 28 की अपेक्षा अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग एतदद्वारा जिला ग्वालियर के विकासखण्ड डबरा में स्थित जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 07, जनपद पंचायत डबरा के वार्ड क्रमांक 13 एवं जनपद पंचायत डबरा की नवगठित ग्राम पंचायत चेतूपाड़ा तथा अरूपी तथा जिला सतना के विकासखण्ड मैहर के अन्तर्गत आने वाली ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत के आम निर्वाचन 2014-15 हेतु निम्नानुसार समय-अनुसूची (कार्यक्रम) विहित करता है:—

स. क्र.	कार्यवाही	नियम	निर्धारित तारीख			समय
			प्रथम चरण	द्वितीय चरण	तृतीय चरण	
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
1.	(i) निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन और नाम निर्देशन-पत्र प्राप्त करना। (ii) स्थानों (सीटों) के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन। (iii) मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन	28, 29 29(क) 23	- -	- -	31-12-2014 (बुधवार)	प्रातः 10:30 बजे
2.	नाम निर्देशन-पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख	28(क)	-	-	7-1-2015 (बुधवार)	दोपहर 3:00 बजे तक
3.	नाम निर्देशन-पत्रों की संवीक्षा (जांच)	28(ख)	-	-	8-1-2015 (गुरुवार)	प्रातः 10:30 बजे से
4.	अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख	28(ग)	-	-	10-1-2015 (शनिवार)	दोपहर 3:00 बजे तक
5.	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना और निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन।	38, 39	-	-	10-1-2015 (शनिवार)	अभ्यर्थिता से नाम वापसी के ठीक बाद।
6.	मतदान (यदि आवश्यक हो)	28(घ)	-	-	19-2-2015 (गुरुवार)	प्रातः 7:00 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7.	मतगणना, सारणीकरण तथा निर्वाचन परिणाम की घोषणा	28(ड) 28(च)	- - -	- - -
(i)	मतदान केन्द्र पर की जाने वाली मतगणना (केवल पंच एवं सरपंच पद के लिए)	- - -	19-2-2015 (गुरुवार)	(मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात्)
(ii)	जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य की विकासखण्ड मुख्यालय पर ई.व्ही.एम. से की जाने वाली मतों की गणना.	- - -	22-2-2015 (रविवार)	प्रथम राउण्ड :— प्रातः 7:30 बजे से 10:30 द्वितीय राउण्ड :— प्रातः 11:00 से दोपहर 2:00 तृतीय राउण्ड :— दोपहर 2:30 से सायं 5:30
(iii)	सरपंच एवं पंच पद की मतदान केन्द्र पर की गई मतगणना का सारणीकरण और परिणाम की घोषणा.	- - -	23-2-2015 (सोमवार)	प्रातः 8:00 बजे से
(iv)	सरपंच एवं पंच पद की विकासखण्ड मुख्यालय पर की जाने वाली मतगणना सारणीकरण तथा निर्वाचन परिणाम की घोषणा.	- - -	24-2-2015 (मंगलवार)	प्रातः 10:30 बजे से
(v)	जनपद पंचायत सदस्य पद के लिए मतों का सारणीकरण और निर्वाचन परिणाम की घोषणा.	- - -	24-2-2015 (मंगलवार)	प्रातः 10:30 बजे से
(vi)	जिला पंचायत सदस्य पद के लिये मतों का विकासखण्ड स्तरीय सारणीकरण.	- - -	25-2-2015 (बुधवार)	प्रातः 10:30 बजे से
(vii)	जिला पंचायत सदस्य पद के लिये मतों का जिला मुख्यालय पर सारणीकरण और निर्वाचन परिणाम की घोषणा.	- - -	25-2-2015 (बुधवार)	प्रातः 10:30 बजे से

दीपक सक्सेना, उपसचिव.

### सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 जनवरी 2015

क्र. एफ-3-1-2015-एक-4.—राज्य शासन एतद्वारा संलग्न परिशिष्ट-एक में दर्शाये गये नगरीय निकायों (नगरपालिक निगम एवं नगर परिषदों) के आम निर्वाचन 2014-15 तथा नगरपालिका परिषद्, हरदा, जिला हरदा एवं नगर परिषद् छनेरा, जिला खण्डवा के अध्यक्ष को पद से वापस बुलाये जाने हेतु मतदान दिनांक 31 जनवरी 2015 शनिवार को जिले के संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों के लिये सामान्य अवकाश तथा परक्रान्त लिखित अधिनियम (निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट्स एक्ट) 1881 (1881 का क्रमांक 26) की धारा 25 के अन्तर्गत सार्वजनिक अवकाश घोषित करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अमिताभ अवस्थी, उपसचिव.

परिशिष्ट—एक

### नगरीय निकायों के आम निर्वाचन 2014-15

क्र. (1)	जिला (2)	नगरीय निकाय का नाम (3)	वार्डों की संख्या (4)	मतदान केन्द्रों की संख्या (5)
1	भोपाल	नगरपालिक निगम, भोपाल	85	1743
2	इन्दौर	नगरपालिक निगम, इन्दौर	85	2092
3	जबलपुर	नगरपालिक निगम, जबलपुर	79	1026
4	छिन्दवाड़ा	नगरपालिक निगम, छिन्दवाड़ा	48	233
5	दमोह	नगर परिषद्, पटेरा	15	15
6	होशंगाबाद	नगर परिषद्, वनखेड़ी	15	15
7	विदिशा	नगर परिषद्, शमशाबाद	15	15
8	राजगढ़	नगर परिषद्, छापीहेड़ा	15	15
9	दतिया	नगर परिषद्, बडौनी	15	15

परिशिष्ट—दो

### मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

“निर्वाचन भवन”

58, अरेरा हिल्स, भोपाल (म. प्र.)-462011

भोपाल, दिनांक 29 दिसम्बर 2014

### आदेश

क्र. एफ-53-05-2014-तीन-1770.—मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14(1) एवं मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 20(2) (क), मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 36(2)(क) एवं मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 21 की अपेक्षा अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग एतद्वारा संलग्न परिशिष्ट एक में अंकित नगरीय निकायों (नगरपालिक निगम / नगर परिषद) के आम निर्वाचन, 2014-15 हेतु निम्नानुसार समय अनुसूची (कार्यक्रम) विहित करता है:—

क्र. (1)	कार्यवाही (2)	संबंधित नियम (3)	निर्धारित तारीख (4)	समय (5)
1 (i)	निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन और नाम निर्देशन-पत्र प्राप्त करना।	21, 22	30-12-2014 (मंगलवार)	प्रातः 10:30 बजे से
(ii)	स्थानों (सीटों) के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन।	22 “क”	—उपरोक्तानुसार—	
(iii)	मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन	16	—उपरोक्तानुसार—	
2	नाम निर्देशन-पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख	21(क)	6-1-2015 (मंगलवार)	प्रातः 10:30 से दोपहर 3:00 बजे तक

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	नाम-निर्देशन पत्रों की संवीक्षा (जांच)	21(ख)	7-1-2015 (बुधवार)	प्रातः 10.30 से
4	अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख	21(ग)	9-1-2015 (शुक्रवार)	प्रातः 10.30 से दोपहर 3.00 बजे तक
5	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना और निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन.	30, 31	9-1-2015 (शुक्रवार)	अभ्यर्थिता से नाम वापसी के ठीक बाद.
6	मतदान (यदि आवश्यक हो)	21(घ)	31-1-2015 (शनिवार)	प्रातः 7.00 बजे से अपराह्न 5.00 बजे तक.
7	मतगणना और निर्वाचन परिणामों की घोषणा	21(ङ)	4-2-2015 (बुधवार)	प्रातः 9.00 बजे से

गिरीश शर्मा, उपसचिव.

## विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 27 जनवरी 2015

फा. क्र. 17(ई)43-2009-4259-इक्कीस-ब(एक)-14.—ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 (2009 का 4) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17(ई)43-2009-2251-इक्कीस-ब(1)-13, दिनांक 10 मई 2013 में, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:—

### संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 3, 38 एवं 65 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं अर्थात्:—

### सारणी

अनु- क्रमांक	न्यायाधिकारी का नाम	पदस्थापना का स्थल	सिविल जिले का नाम	मध्यवर्ती स्तर की पंचायत के लिए ग्राम न्यायालय का नाम	ग्राम न्यायालय के मुख्यालय का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“3.	श्री दीप नारायण सिंह, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2.	अनूपपुर	अनूपपुर	अनूपपुर	अनूपपुर
38.	श्री जयदीप सिंह, षष्ठम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1.	जबलपुर	जबलपुर	जबलपुर	जबलपुर
65.	श्रीमती सविता ओगले, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1.	बुधनी	सीहोर	बुधनी	बुधनी।”

F.No. 17(E)43-2009-4259-XXI-B(1)-14.—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Gram Nyayalayas Act, 2008 (No. 4 of 2009), the State Government, in Consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendment in this department's Notification F. No. 17(E)43-2009-2251-XXI-B(1)-13, dated 10th May 2013, namely :—

#### AMENDMENT

In the said Notification in the table, for serial numbers 3, 38 and 65 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely :—

TABLE

S.No.	Name of Nyayadikari	Place of Posting	Name of Civil District	Name of Gram Nyayalaya for Panchayat at Intermediate level	Name of Headquarter of Gram Nyayalaya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“3.	Shri Deep Narayan Singh IIInd Civil Judge Class-II,	Anuppur	Anuppur	Anuppur	Anuppur
38.	Shri Jaideep Singh, VIIt Civil Judge Class-I.	Jabalpur	Jabalpur	Jabalpur	Jabalpur
65.	Smt. Savita Ogle, Civil Judge Class-I.	Budhni	Sehore	Budhni	Budhni.”

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
विरेन्द्र सिंह, प्रमुख सचिव.

#### विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश

(1) (2) (3)

धार, दिनांक 13 जनवरी 2015

3	मनावर	13-1-2015
4	धरमपुरी	13-1-2015

क्र. 385-व.लि.-2015.—मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, खोपाल के अधिसूचना क्रमांक एफ-3-1-2014-1-4, दिनांक 8 जनवरी 2015 के तहत मैं, कलेक्टर, जिला धार वर्ष 2014-15 हेतु मतदान तीन चरणों में त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन हेतु क्रमशः दिनांक 13 जनवरी 2015 मंगलवार एवं दिनांक 31 जनवरी 2015 शनिवार तथा दिनांक 19 फरवरी 2015 गुरुवार को जिले के संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में सामान्य अवकाश घोषित करती हूँ।

उपरोक्त दिनांक को केवल संबंधित क्षेत्रों के लिए परक्रान्त लिखित अधिनियम (निगोशियबल इन्स्ट्रमेंट्स एक्ट) 1881 (1881 का क्रमांक 26) की धारा 25 के अन्तर्गत सार्वजनिक अवकाश भी घोषित करती हूँ जो निम्नानुसार है:—

##### 1. प्रथम चरण

##### 2. द्वितीय चरण

अ.क्र.	विकासखण्ड का नाम	अवकाश दिनांक
(1)	(2)	(3)
1	बदनावर	31-1-2015
2	तिरला	31-1-2015
3	उमरबंन	31-1-2015
4	धार	31-1-2015
5	कुक्शी	31-1-2015

##### 3. तृतीय चरण

अ.क्र.	विकासखण्ड का नाम	अवकाश दिनांक
(1)	(2)	(3)
1	सरदारपुर	19-2-2015
2	बाग	19-2-2015
3	निसरपुर	19-2-2015
4	डही	19-2-2015

जयश्री कियावत, कलेक्टर.

अ.क्र.	विकासखण्ड का नाम	अवकाश दिनांक
(1)	(2)	(3)
1	नालछा	13-1-2015
2	गंधवानी	13-1-2015

कार्यालय, मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण,  
विन्ध्याचल भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 जनवरी 2015

क्र. फा. दो-22-1-स्था.-2013.—मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण विनियम, 1985 के विनियम-34(2) (ख) के अनुसार में, एतद्वारा, अधिसूचित किया जाता है कि उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश द्वारा प्रकाशित वर्ष 2015 के कलैंडर अनुसार उच्च न्यायालय द्वारा अधिसूचित ग्रीष्मकालीन विश्रामावकाश अवधि के दौरान, मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण में दिनांक 18 मई 2015 से 1 जून 2015 तक कुल पन्द्रह दिवस की अवधि का ग्रीष्मकालीन विश्रामावकाश रहेगा।

तथापि उक्त विश्रामावकाश अवधि में सार्वजनिक व सामान्य अवकाश दिवसों को छोड़कर, सामान्य कार्य दिवसों में अधिकरण का कार्यालयीन कार्य यथावत् जारी रहेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार,

एम. एस. परिहार, रजिस्ट्रार I/C.

मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग  
प्लाट नं. 76, अरेरा हिल्स, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 जनवरी 2015

क्र. 301-001-2004.—मध्यप्रदेश शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ. 5-4/2004/29-2, भोपाल, दिनांक 28 जनवरी 2004 द्वारा वैष्णव शक्तियों के अधीन पूर्व में जारी स्वतंत्र जिला फोरमों के अध्यक्षों को वर्तमान प्रभार के अतिरिक्त पूर्णकालिक/अंशकालिक जिला फोरमों के अध्यक्षों के रूप में नियुक्त किये जाने के आदेश में निमानुसार परिवर्तन करते हुए नीचे सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट जिला फोरमों के अध्यक्षों को उनके वर्तमान प्रभार के अतिरिक्त दिनांक 1 फरवरी 2015 से सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट जिला फोरमों का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा जाता है :—

क्र.	पूर्णकालिक जिला फोरम	संबद्ध अंशकालिक फोरम
(1)	(2)	(3)
1	जबलपुर	सिवनी एवं बालाघाट
2	कटनी	मण्डला, उमरिया एवं डिण्डौरी
3	रीवा	सीधी, शहडोल एवं अनूपपुर

अवधेश कुमार श्रीवास्तव, रजिस्ट्रार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश

विदिशा, दिनांक 31 दिसम्बर 2014

क्र. क्यू-एएससी-2014-16924.—मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एम-3-2-1999-1-4, भोपाल, दिनांक 30 मार्च 1999 के अनुसार सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-2 के अनुक्रमांक 4 के नियम 8 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मैं एम. बी. ओझा, कलेक्टर, जिला विदिशा वर्ष 2015 के लिये विदिशा जिले के लिये नीचे दर्शाई गई तिथियों को पूरे दिवस के लिये स्थानीय अवकाश घोषित करता हूँ :—

क्र.	त्यौहार का नाम	स्थानीय दिनांक	अवकाश दिन	विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	मकर संक्रांति पर्व	15 जनवरी 2015	गुरुवार	संपूर्ण जिला
2	रंग पंचमी	10 मार्च 2015	मंगलवार	संपूर्ण जिला
3	दीपावली का दूसरा दिन	12 नवम्बर 2015	गुरुवार	संपूर्ण जिला

उक्त अवकाश बैंक/कोषालय/उपकोषालय पर लागू नहीं होंगे।

एम. बी. ओझा, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवास, मध्यप्रदेश

देवास, दिनांक 14 जनवरी 2015

क्र. 1411-सा-2-2015.—सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-2 के अनुक्रमांक-4 नियम 8 तथा मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ-322-1999-1-4, भोपाल, दिनांक 30 मार्च 1999 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए,

मैं, आशुतोष अवस्थी, कलेक्टर, जिला देवास, वर्ष 2015 के लिये देवास जिले की सीमा क्षेत्र हेतु उनके समुख दर्शाई गई तिथियों के लिये निम्नानुसार 03 स्थानीय अवकाश घोषित करता हूँ :—

क्र.	त्वौहार/स्थानीय अवकाश का नाम	दिनांक	वार	अवकाश का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	रंगपंचमी	10 मार्च 2015	मंगलवार	सम्पूर्ण जिला
2	महाअष्टमी	21 अक्टूबर 2015	बुधवार	कन्नौद/खातेगांव सम्पूर्ण अनुभाग क्षेत्र
3	दशहरे का दूसरा दिन	23 अक्टूबर 2015	शुक्रवार	देवास/सोनकच्छ सम्पूर्ण अनुभाग क्षेत्र
4	गोवर्धन पूजा (दीपावली का दूसरा दिन).	12 नवम्बर 2015	गुरुवार	सोनकच्छ/बागली/सम्पूर्ण अनुभाग क्षेत्र
5	भाईदूज	13 नवम्बर 2015	शुक्रवार	देवास/बागली/कन्नौद/खातेगांव सम्पूर्ण अनुभाग क्षेत्र

उपरोक्त स्थानीय अवकाश कोषागारों/ उप कोषागारों एवं बैंकों पर लागू नहीं होंगे।

आशुतोष अवस्थी, कलेक्टर।

### संचालनालय, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 जनवरी 2015

क्र.-गन्ना-एस-3-क्षे.रा.-2014-15-59.—मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं क्रय नियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, मोहन लाल, गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2014-15 हेतु पार्वती स्वीटनर्स एण्ड पावर लि., तह. भितरवार, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश के लिए नीचे दर्शाये केन्द्रों एवं उनके अंतर्गत आने वाले ग्रामों के समुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्र को रक्षित घोषित करता हूँ :—

क्र.	जिला/तहसील	क्रय केन्द्र	ग्रामों की संख्या	क्षेत्र (हेकेएयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	ग्वालियर/भितरवार	फैक्ट्रीगेट	52	1247.80
2	ग्वालियर/डबरा	फैक्ट्रीगेट	47	1995.20
3	शिवपुरी/नरवर	फैक्ट्रीगेट	34	558.65
4	शिवपुरी/करैरा	फैक्ट्रीगेट	13	403.95
5	दतिया/छोटीबड़ौनी	फैक्ट्रीगेट	21	1452.75

योग : 167 5657.99

उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अंतर्गत जो ग्राम सम्मिलित किए गये हैं, उनकी सूची संलग्न है। यह आदेश जब तक, इस हेतु सम्परिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश अलग से प्रसारित नहीं किये जाते, तब तक पैराई कार्य में प्रभावशाली रहेंगे।

मोहन लाल, गन्ना आयुक्त।

## PARVATI SWEETNERS AND POWER LTD.

Sankhani, Tehsil-Bhitarwar, Distt. Gwalior (Madhya Pradesh)

गन्ना पेराई सीजन 2014-2015 के लिये क्षेत्र आरक्षण हेतु प्रस्तावित संबंधित ग्रामों की जानकारी एवं दूरी

क्र. सं.	जिला	तहसील	संबंधित ग्रामों के नाम	रोपा	पेडी	कुल रकमा गन्ना (हे.)	फेकट्री से गांव की दूरी	क्रय केन्द्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	ग्वालियर	भितरवार	सांखनी	46.00	58.88	104.88	1	मिल गेट
2			छोटी झाड़	2.00	5.40	7.40	2	-"-
3			खडीचा	14.20	14.20	28.40	1	-"-
4			लुहारी	92.60	106.00	198.60	2	-"-
5			सईडा खुर्द	48.40	44.20	92.60	5	-"-
6			सइडाकलां	2.40	2.60	5.00	6	-"-
7			बागवई	0.80	3.80	4.60	3	-"-
8			सौताखिरिया	0.00	0.60	0.60	3	-"-
9			भानगढ़	0.80	2.00	2.80	5	-"-
10			घाटमपुर	0.00	2.00	2.00	6	-"-
11			सुखनाखिरिया	0.00	3.40	3.40	3	-"-
12			खेडा	8.00	97.80	105.80	10	-"-
13			पलायछा	0.00	0.30	0.30	12	-"-
14			आदमपुर	0.00	2.00	2.00	9	-"-
15			लोढ़ी	9.20	11.70	20.90	14	-"-
16			नजरपुर	5.00	12.60	17.60	13	-"-
17			राधापुर	2.80	14.20	17.00	9	-"-
18			फुलपुर	0.00	0.60	0.60	8	-"-
19			ठाठी	0.60	3.40	4.00	19	-"-
20			बैलगडा	0.00	2.00	2.00	16	-"-
21			केथोद	0.00	2.60	2.60	20	-"-
22			सेकरा	2.40	5.10	7.50	25	-"-
23			वनियानी	0.00	0.80	0.80	15	-"-
24			डोगरपुर A	4.20	38.60	42.80	19	-"-
25			कैरुआ	11.02	107.80	118.82	25	-"-
26			मुढ़री	0.40	7.00	7.40	20	-"-
27			रुअर	0.80	6.00	6.80	25	-"-
28			चिटौली	0.60	20.60	21.20	19	-"-
29			खोर	0.20	20.40	20.60	26	-"-
30			खिरिया	1.20	3.40	4.60	16	-"-
31			धोवट	13.90	57.90	71.80	15	-"-
32			सहवई	0.00	13.30	13.30	22	-"-
33			जतरथी	2.00	17.40	19.40	23	-"-
34			ईटो	2.00	28.60	30.60	25	-"-
35			रिछारी खुर्द	2.80	36.60	39.40	26	-"-
36			वाजना	21.20	66.50	87.70	28	-"-
37			मुशहरी	0.00	1.40	1.40	25	-"-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
38	ग्वालियर	भितरवा	निजामपुर	1.00	3.00	4.00	30	मिल गेट
39			स्याउ	0.40	14.30	14.70	24	-"-
40			बनहरी	14.60	28.40	43.00	35	-"-
41			पाटई	0.60	1.40	2.00	29	-"-
42			गाजना	13.20	33.80	47.00	28	-"-
43			दुबाहा	0.00	0.20	0.20	30	-"-
44			मडौली	0.00	0.40	0.40	28	-"-
45			किठौदा	1.50	0.80	2.30	7	-"-
46			ईटमा	0.00	0.20	0.20	9	-"-
47			ख्यावदा	0.20	3.20	3.40	35	-"-
48			बड़ी झाउ	2.60	0.40	3.00	2	-"-
49			पचांया	1.60	2.80	4.40	4	-"-
50			राघौरा	0.20	0.80	1.00	5	-"-
51			बरौआ	1.60	3.20	4.80	7	-"-
52			मोहिन्दा	0.20	0.00	0.20	4	-"-
			योग . .	333.22	914.58	1247.80		
1	ग्वालियर	डबरा	रुआ	25.60	49.00	74.60	3	-"-
2			जरावनी	52.20	88.00	140.20	4	-"-
3			नुहारी	54.60	94.00	148.60	5	-"-
4			जतरथी	36.80	49.40	86.20	2	-"-
5			सिमिरिया	48.00	108.00	156.00	6	-"-
6			धिरौरा	38.40	63.00	101.40	5	-"-
7			किशौली	12.50	29.60	42.10	6	-"-
8			बरौआ	62.00	118.00	180.00	4	-"-
9			मसुदपुर	25.70	32.60	58.30	5	-"-
10			विजकपुर	28.40	35.00	63.40	7	-"-
11			सर्वा	3.40	6.60	10.00	6	-"-
12			करियावटी	10.10	8.10	18.20	6	-"-
13			सितलपुर	3.60	5.20	8.80	1	-"-
14			चिटौली	0.00	16.20	16.20	10	-"-
15			लिधौरा	7.00	7.00	14.00	9	-"-
16			लोहगढ	0.60	19.80	20.40	15	-"-
17			झाडौली	24.80	75.40	100.20	4	-"-
18			काशीपुर	1.00	4.00	5.00	8	-"-
19			खेडीरायथमल	0.00	0.40	0.40	5	-"-
20			सैतोल	0.00	2.40	2.40	6	-"-
21			देवरा	7.80	72.90	80.70	4	-"-
22			जावल	0.00	1.40	1.40	6	-"-
23			मगरोरा	0.80	4.40	5.20	16	-"-
24			इटाल	0.40	4.10	4.50	14	-"-
25			चितावनी	5.10	93.70	98.80	12	-"-
26			हरीपुर	15.60	87.00	102.60	17	-"-
27			चांदपुर	23.70	112.10	135.80	15	-"-
28			डबरा	0.00	1.00	1.00	15	-"-
29			चैतुपाडा	1.20	19.20	20.40	16	-"-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
30	ग्वालियर	डबरा	बैलगढा	5.20	23.40	28.60	16	मिल गेट
31			कर्ता	0.40	7.60	8.00	15	-"-
32			अरुस्सी	4.60	32.40	37.00	17	-"-
33			पिछोर	1.00	14.00	15.00	20	-"-
34			भरौली	0.00	26.30	26.30	21	-"-
35			बाबूपुर	0.40	10.00	10.40	19	-"-
36			गजापुर	1.80	58.60	60.40	20	-"-
37			किसनपुर	2.00	6.00	8.00	21	-"-
38			जनकपुर	0.00	0.80	0.80	22	-"-
39			धुबा	1.20	0.00	1.20	23	-"-
40			सरनागत	1.00	19.10	20.10	20	-"-
41			विराट	1.00	11.60	12.60	21	-"-
42			निर्भैरा	1.00	9.00	10.00	20	-"-
43			पटारीयापुरा	0.00	6.60	6.60	19	-"-
44			संकरपुर	0.80	4.50	5.30	22	-"-
45			रामपुर	3.80	17.00	20.80	23	-"-
46			हसनपुर	0.90	5.80	6.70	25	-"-
47			राजपुर	3.70	16.90	20.60	26	-"-
			योग . .	518.10	1477.10	1995.20		
1	शिवपुरी	करैरा	वांसगढ	7.20	120.39	127.59	16	-"-
2			अडर	2.20	57.20	59.40	15	-"-
3			डैबरा सानी	8.80	4.80	13.60	8	-"-
4			सतारी	3.60	25.80	29.40	10	-"-
5			हथलई	2.00	2.80	4.80	9	-"-
6			सरेठा	0.00	12.80	12.80	10	-"-
7			पाली	3.80	30.80	34.60	8	-"-
8			छता	1.00	5.80	6.80	12	-"-
9			चक सुनारी	0.20	15.60	15.80	11	-"-
10			सड	0.00	12.80	12.80	13	-"-
11			जनौरी	0.20	21.20	21.40	12	-"-
12			लैदा	1.00	60.40	61.40	14	-"-
13			टोरीया कला	1.60	1.60	3.20	15	-"-
			योग . .	31.60	371.99	403.59		
1	शिवपुरी	नरवर	पपरेहू	17.80	12.60	30.40	4	-"-
2			गोकिन्दा	1.40	7.00	8.40	5	-"-
3			दौनी	6.80	31.60	38.40	4	-"-
4			कल्यानपुर	3.00	1.20	4.20	6	-"-
5			ओरीना	2.00	1.60	3.60	7	-"-
6			देहटा	6.00	13.20	19.20	5	-"-
7			पनानेर	0.40	4.65	5.05	15	-"-
8			जरावनी	0.00	4.60	4.60	16	-"-
9			हथेडा	0.00	0.40	0.40	17	-"-
10			सिहोर	0.00	0.80	0.80	13	-"-
11			पुल्हा	2.40	15.60	18.00	18	-"-
12			वेहगंवा	0.40	27.50	27.90	20	-"-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
13	शिवपुरी	नरवर	धमधौली	1.40	19.00	20.40	21	मिल गेट
14			बामरौल	2.20	15.90	18.10	1	-"-
15			वसई	0.40	8.20	8.60	1	-"-
16			कैरुआ	0.00	0.20	0.20	2	-"-
17			करही	2.00	106.40	108.40	25	-"-
18			अडोरा	2.20	50.20	52.40	23	-"-
19			छितरी	2.00	4.60	6.60	21	-"-
20			दिहाला	0.00	7.60	7.60	17	-"-
21			मोहनगढ़	3.40	13.20	16.60	5	-"-
22			कालीपहाड़ी	0.00	1.40	1.40	26	-"-
23			मुडैनी	0.00	0.20	0.20	18	-"-
24			खडीचा	0.00	0.80	0.80	22	-"-
25			वरौआ	0.00	3.00	3.00	23	-"-
26			कोटीयाखेड़ा	0.00	6.60	6.60	24	-"-
27			नैनागिर	0.00	11.00	11.00	25	-"-
28			राजपुर	0.20	2.60	2.80	26	-"-
29			करेबाह	0.00	8.60	8.60	27	-"-
30			भासडा खुर्द	1.40	54.40	55.80	19	-"-
31			भैसा	8.80	18.00	26.80	9	-"-
32			जरगांव	7.20	18.80	26.00	10	-"-
33			कैरुआ केम्प	0.20	2.40	2.60	15	-"-
34			रमगढ़ा	3.00	10.20	13.20	17	-"-
			योग . .	74.60	484.05	558.65		
1	दतिया	बडौनी	खिरिया	8.80	41.40	50.20	12	मिल गेट
2			सिजौरा	58.40	257.80	316.20	14	-"-
3			हिडौरा	25.20	135.00	160.20	15	-"-
4			घुघसी	22.70	107.60	130.30	14	-"-
5			कुरथरा	18.80	63.00	81.80	16	-"-
6			नैकोरा	0.20	14.60	14.80	17	-"-
7			सैंघोरा	4.80	22.05	26.85	16	-"-
8			कलोथरा	3.20	58.10	61.30	14	-"-
9			मडोर	0.40	15.60	16.00	17	-"-
10			रांव	22.70	107.60	130.30	12	-"-
11			गोंधारी	0.00	11.00	11.00	13	-"-
12			विलहारी	5.20	58.80	64.00	14	-"-
13			टंका	1.80	16.00	17.80	18	-"-
14			जौनहार	1.20	27.40	28.60	19	-"-
15			सनाई	13.80	80.20	94.00	16	-"-
16			छापर मडीया	1.80	19.80	21.60	19	-"-
17			भैरार	3.40	12.00	15.40	18	-"-
18			कमयरा	0.00	192.00	192.00	14	-"-
19			लमकना	2.20	5.80	8.00	12	-"-
20			तौर सुनारी	0.20	2.20	2.40	11	-"-
21			एरई	2.40	7.60	10.00	14	-"-
			योग . .	197.20	1255.55	1452.75		
			कुल योग . .	1154.72	4503.27	5657.99		

## राज्य शासन के आदेश

### राजस्व विभाग

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग**

रायसेन, दिनांक 23 जनवरी 2015

क्र. 01-अ-82-2014-15-प्र. क्र. 1-अ-82-14-15—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 (क्रमांक एक, सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ :—

#### अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	कुल रक्कबा (हेक्टर में)	अर्जित किया गया रक्कबा (हेक्टर में)	धारा 11 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
						द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	(5)
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	(6)
रायसेन	रायसेन	कढ़ैया	56/1/1/1	1.555	0.402	कार्यपालन यंत्री, सम्राट	दीवानगंज सिंचाई योजना
रायसेन	रायसेन	कढ़ैया	59/1/1	0.405	0.042	अशोक सागर संभाग,	की दार्यों और बार्यों तट
रायसेन	रायसेन	कढ़ैया	59/3/1	1.619	0.198	क्रमांक 2 विदिशा.	नहर निर्माण हेतु.
रायसेन	रायसेन	कढ़ैया	59/2	0.809	0.149		
रायसेन	रायसेन	कढ़ैया	59/4	2.388	0.198		
रायसेन	रायसेन	कढ़ैया	59/3/2	0.765	0.047		
रायसेन	रायसेन	कढ़ैया	73/1	0.292	0.042		
रायसेन	रायसेन	कढ़ैया	73/3	0.097	0.059		
रायसेन	रायसेन	कढ़ैया	116/3	2.482	0.362		
रायसेन	रायसेन	कढ़ैया	73/4	0.097	0.015		
रायसेन	रायसेन	कढ़ैया	116/4	2.482	0.214		
रायसेन	रायसेन	कढ़ैया	75/1	1.380	0.166		
रायसेन	रायसेन	कढ़ैया	75/2	1.376	0.020		
रायसेन	रायसेन	कढ़ैया	80/2	1.922	0.166		
रायसेन	रायसेन	कढ़ैया	96	1.182	0.065		
रायसेन	रायसेन	कढ़ैया	95	1.344	0.220		
रायसेन	रायसेन	कढ़ैया	106	4.100	0.077		
रायसेन	रायसेन	कढ़ैया	93	0.825	0.083		
रायसेन	रायसेन	कढ़ैया	105/1	0.752	0.178		
रायसेन	रायसेन	कढ़ैया	67	2.962	0.317		
रायसेन	रायसेन	कढ़ैया	105/2	0.757	0.110		
रायसेन	रायसेन	कढ़ैया	97/2	3.339	0.005		
रायसेन	रायसेन	कढ़ैया	97/1/1	0.615	0.003		
रायसेन	रायसेन	कढ़ैया	104/1/1	1.700	0.065		
रायसेन	रायसेन	कढ़ैया	104/2	3.237	0.238		
रायसेन	रायसेन	कढ़ैया	56/2	0.405	0.063		
रायसेन	रायसेन	कढ़ैया	56/1/1/2	0.809	0.127		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायसेन	रायसेन	कढैया	68/2	0.243	कार्यपालन यंत्री, सप्राट दीवानगंज सिंचाई योजना
रायसेन	रायसेन	कढैया	65/4	1.506	अशोक सागर संभाग, की दायीं और बायीं तट
रायसेन	रायसेन	कढैया	65/3	1.501	क्रमांक 2 विदिशा.
रायसेन	रायसेन	कढैया	65/2	1.501	नहर निर्माण हेतु.
रायसेन	रायसेन	कढैया	65/1	1.506	
रायसेन	रायसेन	कढैया	116/1/3	0.809	
रायसेन	रायसेन	कढैया	116/1/2	0.809	
रायसेन	रायसेन	कढैया	116/1/1	1.770	
रायसेन	रायसेन	कढैया	116/2	2.482	
रायसेन	रायसेन	कढैया	117/1	2.640	
		योग . .	37 किता	54.463	0.024
					4.660
रायसेन	रायसेन	कुलहाड़िया	1/2/1/1	3.642	
रायसेन	रायसेन	कुलहाड़िया	1/1	3.428	
रायसेन	रायसेन	कुलहाड़िया	2	0.202	
रायसेन	रायसेन	कुलहाड़िया	3	0.433	
रायसेन	रायसेन	कुलहाड़िया	4/1	4.580	
		योग . .	5 किता	12.285	0.126
					0.782
रायसेन	रायसेन	छोला	6/2	2.000	
रायसेन	रायसेन	छोला	7/1	1.627	
रायसेन	रायसेन	छोला	19/1	2.372	
रायसेन	रायसेन	छोला	19/2	2.371	
रायसेन	रायसेन	छोला	58/1/1	1.234	
रायसेन	रायसेन	छोला	58/1/2	1.214	
रायसेन	रायसेन	छोला	58/2	1.214	
रायसेन	रायसेन	छोला	59/1/1	1.720	
		योग . .	8 किता	13.752	0.063
					1.621
रायसेन	रायसेन	बरजोरपुर	10/3	1.396	
रायसेन	रायसेन	बरजोरपुर	18/2/2	1.011	
रायसेन	रायसेन	बरजोरपुर	18/2/1/3	0.202	
रायसेन	रायसेन	बरजोरपुर	18/2/3	0.809	
रायसेन	रायसेन	बरजोरपुर	18/2/1/1/1	0.381	
रायसेन	रायसेन	बरजोरपुर	72/2	0.334	
रायसेन	रायसेन	बरजोरपुर	18/2/1/2	0.809	
रायसेन	रायसेन	बरजोरपुर	14/1/1/3	1.234	
रायसेन	रायसेन	बरजोरपुर	14/1/1/1	0.478	
		योग . .	9 किता	6.654	0.134
					0.929
रायसेन	रायसेन	जमुनिया	93	3.504	
रायसेन	रायसेन	जमुनिया	95/1	2.590	
		योग . .	2 किता	6.094	
					0.458
		महा योग . .	61 किता	93.248	8.450

भूमि का नक्शा कार्यपालन यंत्री, सप्राट अशोक सागर, संभाग क्रमांक 2, विदिशा के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
जे. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

**कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन  
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग**

रीवा, दिनांक 31 जनवरी 2015

क्र. 259-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुर्नवास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं। चूंकि मझगंवा शाखा नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है, तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में की जा चुकी है, इस कारण धारा 11(3) के तहत् सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची				धारा 11 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	कोटर	सोनवर्षा	8.940	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पुरवा नहर संभाग क्रमांक 2, सतना।	बाणसागर परियोजना की मझगंवा शाखा नहर के निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु।

भूमि का नक्शे (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है।

क्र. 61-भू-अर्जन-14-15.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुर्नवास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूं। चूंकि मझगंवा शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है, तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है, इस कारण धारा 11(3) के तहत् सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची				धारा 11 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सेमरिया	कौड़िहाई	2.710	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्रमांक 2, सतना (म. प्र.)	बाणसागर परियोजना की मझगंवा शाखा नहर के निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु।

भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है।

क्र. 263-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुर्वास और पुर्वव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं। चूंकि मझगंवा शाखा नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है, तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है, इस कारण धारा 11(3) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची				सार्वजनिक प्रयोजन	का वर्णन
जिला	तहसील	भूमि का वर्णन	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	धारा 11 की उपधारा (2)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सेमरिया	खम्हरिया	3.520	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पुरवा नहर संभाग क्रमांक 2, सतना।	बाणसागर परियोजना की मझगंवा शाखा नहर के निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु।

भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है।

क्र. 265-भू-अर्जन-14-15.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुर्वास और पुर्वव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है। चूंकि मझगंवा शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है, तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है, इस कारण धारा 11(3) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची				सार्वजनिक प्रयोजन	का वर्णन
जिला	तहसील	भूमि का वर्णन	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	धारा 11 की उपधारा (2)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सेमरिया	पिपराछ	5.310	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्रमांक 2, सतना (म. प्र.)	बाणसागर परियोजना की मझगंवा शाखा नहर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थिति संपत्तियों के अर्जन हेतु।

भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है।

क्र. 267-भू-अर्जन-14-15.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुर्नवास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने को लिये प्राधिकृत करता है। चूंकि मझगंवा शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है, तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है, इस कारण धारा 11(3) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची					
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	धारा 11 की उपधारा	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सेमरिया	पिपरा	5.710	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्रमांक 2, सतना (म. प्र.)	बाणसागर परियोजना की मझगंवा शाखा नहर के निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थिति संपत्तियों के अर्जन हेतु।

भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है।

क्र. 269-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुर्नवास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने को लिये प्राधिकृत करता है। चूंकि मझगंवा शाखा नहर का निर्माण की पूर्व से चल रहा है, तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में की जा चुकी है, इस कारण धारा 11(3) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची					
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	धारा 11 की उपधारा	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सेमरिया	झकौरा	4.251	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पुरवा नहर संभाग क्रमांक-2, सतना।	बाणसागर परियोजना की मझगंवा शाखा नहर के निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थिति संपत्तियों के अर्जन हेतु।

भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है।

क्र. 271-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. चूंकि मझगंवा शाखा नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है, तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में की जा चुकी है, इस कारण धारा 11(3) के तहत् सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

भूमि का वर्णन				अनुसूची	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सेमरिया	छिरहटा	2.820	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पुरवा नहर संभाग क्रमांक-2, सतना.	बाणसागर परियोजना की मझगंवा शाखा नहर के निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 273-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. चूंकि मझगंवा शाखा नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है, तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में की जा चुकी है, इस कारण धारा 11(3) के तहत् सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

भूमि का वर्णन				अनुसूची	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सेमरिया	सेमरी	6.300	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पुरवा नहर संभाग क्रमांक-2, सतना.	बाणसागर परियोजना की मझगंवा शाखा नहर के निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 275-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ। चूंकि मझगांव शाखा नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है, तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में की जा चुकी है, इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची					
जिला	तहसील	भूमि का वर्णन नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	धारा 11 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
				(4)	(5)
सतना	बिरसिंहपुर	रिमारी	5.880	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पुरवा नहर संभाग क्रमांक-2, सतना.	बाणसागर परियोजना की मझगांव शाखा नहर के निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु।

भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. डी. एस. अग्निवंशी, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव।

### कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा, दिनांक 23 जनवरी 2015

क्र. 09-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (12) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची					
जिला	तहसील	भूमि का वर्णन ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) रकवा	धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
				(5)	(6)
रीवा	नईगढ़ी	तेदुआ	1.016	कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि., (भ/स) संभाग, क्र. 1, रीवा।	तेदुआ छिपिया नदहाकला वाया बालमुकुन्दा मार्ग निर्माण हेतु।

भूमि का नक्शा, (प्लान) कार्यपालन यंत्री, लो. नि. वि. (भ/स) संभाग क्र. 1, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राहुल जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

## राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 20 जनवरी 2015

प्र. क्र. 5-अ-82-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। भूमि-अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकारी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैः—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छतरपुर
- (ख) तहसील—लवकुशनगर
- (ग) ग्राम—दौनी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि—0.555 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
84/1ख	0.100
84/2	0.455
योग . .	0.555

- (2) महोबा खजुराहो नयी बड़ी रेल लाइन (पूरक) सार्वजनिक प्रयोजन हेतु भू-अर्जन की आवश्यकता है।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी लवकुशनगर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
मसूद अख्तर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

विदिशा, दिनांक 23 जनवरी 2015

प्र. क्र. SDO (k) 3-A-82-13-14-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित

भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक हैः—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—विदिशा
- (ख) तहसील—कुरवाई
- (ग) ग्राम—कुरवाई
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.219 हेक्टर।

कुल खसरा नं.	क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
378	0.070
379	0.149
कुल योग . .	0.219

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बी.ओ.टी. योजनान्तर्गत बीना-कुरवाई-सिरोंज मार्ग के उन्नयन कार्य हेतु।

- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कुरवाई एवं जिला विदिशा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र. क्र. SDO (k) 7-A-82-13-14-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक हैः—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—विदिशा
- (ख) तहसील—कुरवाई
- (ग) ग्राम—इकौदा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.418 हेक्टर।

कुल खसरा नं.	क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
75/1	0.178
77/1	0.240
कुल योग . .	0.418

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बी.ओ.टी. योजनान्तर्गत बीना-कुरवाई-सिरोंज मार्ग के उन्नयन कार्य हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कुरवाई एवं जिला विदिशा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एम. बी. ओड्डा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत “त्योंथर बहाव योजना के टमस मुख्य नहर एवं माइनर नहर निर्माण” में आने वाली निजी/शासकीय भूमियों एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास,  
बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 30 जनवरी 2015

पत्र क्र. 243-प्रका.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—जवा
- (ग) ग्राम—गगहना-129
- (घ) लगभग क्षेत्रफल —902 हेक्टेयर.

#### (अ) निजी पट्टे की भूमि

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर)	
	(1)	(2)
	निजी भूमि	शासकीय भूमि
459	0.846	
473	0.056	
योग . .	902	

#### (ब) शासकीय भूमि

निरंक	—
योग . .	902

पत्र क्र. 245-प्रका.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—जवा
- (ग) ग्राम—कल्याणपुर मामला नं. 1
- (घ) लगभग क्षेत्रफल —0.644 हेक्टेयर.

#### (अ) निजी पट्टे की भूमि

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर)	
	(1)	(2)
	निजी भूमि	शासकीय भूमि
333	0.016	—
334	0.396	—
335	0.061	—
336	0.041	—
337	0.064	—
338	0.001	—
योग . .	0.579	

#### (ब) शासकीय भूमि

375	—	0.065
योग . .	902	0.644

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत “त्योंथर बहाव योजना के माइनर नहर निर्माण” में आने वाली निजी/शासकीय भूमियों एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 247-प्रका.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—जवा
- (ग) ग्राम—कुसहा पवाई नं. 1
- (घ) लगभग क्षेत्रफल —0.209 हेक्टर।

#### (अ) निजी पट्टे की भूमि

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर)	
	(1)	(2)
	निजी भूमि	शासकीय भूमि
14	0.003	—
	योग . .	0.003

#### (ब) शासकीय भूमि

2	—	0.072
3	—	0.115
3	—	0.019
	योग . .	0.206
	महायोग . .	0.209

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत “त्योंथर बहाव योजना के माइनर नहर निर्माण” में आने वाली निजी/शासकीय भूमियों एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 249-प्रका.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—जवा
- (ग) ग्राम—लटियार कोठार-503
- (घ) लगभग क्षेत्रफल —1.901 हेक्टर।

#### (अ) निजी पट्टे की भूमि

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर)	
	(1)	(2)
	निजी भूमि	शासकीय भूमि
246		0.013
247		0.002
323		0.120
324		0.088
325		0.020
326		0.007
328		0.014
329		0.067
330		0.010
332		0.041
333		0.007
334		0.081
341		0.016
355		0.086
356		0.063
357		0.011
358		0.109
359		0.011
371		0.086
372		0.008
373		0.001
375		0.064
383		0.087
384		0.015
385		0.045
391		0.106
395		0.003

(1)	(2)	(ग) ग्राम—खाड़ा पवाई-114 (घ) लगभग क्षेत्रफल —5.063 हेक्टर. (अ) निजी पट्टे की भूमि
खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर)	
(1)	(2)	
396	0.059	निजी भूमि शासकीय भूमि
397	0.051	
398	0.006	
401	0.062	
402	0.010	
403	0.016	
440	0.022	747 0.119
445	0.023	755 0.033
447	0.039	756 0.100
448	0.045	757 0.005
449	0.123	774 0.085
450	0.009	775 0.053
1276	0.171	776 0.082
1278	0.075	777 0.044
1404	0.009	783 0.107
योग . .	<u>1.901</u>	784 0.045
		790 0.010
		791 0.132
(2)	सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत “त्योंथर बहाव योजना के माइनर नहर निर्माण” में आने वाली निजी/शासकीय भूमियों एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.	792 0.017
(3)	भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.	793 0.022
		816 0.077
		817 0.012
		821 0.001
		822 0.101
		849 0.026
		850 0.040
		851 0.091
		852 0.059
		856 0.008
		857 0.049
		858 0.083
		859 0.007
		860 0.064
		861 0.058
		1043 0.236
(क)	जिला—रीवा	1044 0.102
(ख)	तहसील—जवा	1045 0.099

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—जवा

(1)	(2)	(1)	(2)
1046	0.028	1578	0.101
1052	0.005	1612	0.062
1326	0.054	1614	0.115
1328	0.081	1637	0.032
1329	0.048	1638	0.016
1330	0.001	1639	0.066
1331	0.053	1640	0.185
1332	0.124	1642	0.024
1333	0.009	1644	0.052
1415	0.006	1647	0.091
1416	0.073	1648	0.046
1420	0.088	योग . .	<u>4.814</u>
1424	0.027		
1425	0.011		
1426	0.054	1053	— 0.221
1428	0.081	1314	— 0.011
1429	0.019	1482	— 0.011
1430	0.022	1651	— 0.006
1461	0.024		योग . . 0.249
1463	0.044		महायोग . . 5.063
1464	0.034		
1465	0.095		
1480	0.003		
1841	0.209		
1490	0.149		
1505	0.056		
1508	0.108		
1509	0.054		
1539	0.054		
1540	0.053		
1541	0.047		
1543	0.079		
1545	0.078		
1564	0.029		
1566	0.037		
1575	0.022		
1576	0.087		
1577	0.011		

## ( ब ) शासकीय भूमि

1053	—	0.221
1314	—	0.011
1482	—	0.011
1651	—	0.006
	योग . .	<u>0.249</u>
	महायोग . .	<u>5.063</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत “त्योंथर बहाव योजना” के माइनर नहर निर्माण” में आने वाली निजी/शासकीय भूमियों एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 253-प्रका.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्वर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—जवा

- (ग) ग्राम—खालहरिया पवाई-111  
 (घ) लगभग क्षेत्रफल —1.835 हेक्टर.

## (अ) निजी पट्टे की भूमि

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर)	
(1)	(2)	
	निजी भूमि	शासकीय भूमि
11	0.191	
21	0.058	
22	0.002	
23	0.094	
24	0.015	
25	0.024	
66	0.001	
67	0.094	
77	0.114	
78	0.076	
79	0.096	
80	0.014	
81	0.001	
95	0.077	
97	0.041	
98	0.119	
112	0.056	
113	0.095	
114	0.093	
117	0.034	
122	0.182	
123	0.059	
145	0.015	
146	0.203	
147	0.049	
270/112	0.001	
योग . .	1.804	

## (ब) शासकीय भूमि

148	—	0.031
	योग . .	0.031
	महायोग . .	1.835

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत “त्योंथर बहाव योजना के माइनर नहर निर्माण” में आने वाली निजी/शासकीय भूमियों एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 255-प्रका.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

## अनुसूची

## (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा  
 (ख) तहसील—जवाहा  
 (ग) ग्राम—उपरवार कोठार-37  
 (घ) लगभग क्षेत्रफल —3.671 हेक्टर.

## (अ) निजी पट्टे की भूमि

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर)	
(1)	(2)	
	निजी भूमि	शासकीय भूमि
21		0.004
23		0.102
25		0.004
26		0.119
27		0.090
30		0.010
31		0.118
153		0.210
156		0.182
157		0.176
171		0.150
177		0.095
178		0.063
179		0.073
180		0.119
181		0.095
182		0.119
197		0.003
204		0.200
205		0.193
206		0.016
211		0.094
212		0.101
260		0.132
261		0.153
264		0.281
270		0.069

(1)	(2)	(1)	(2)
271	0.028	303	0.062
272	0.002	309	0.056
290	0.001	310	0.022
292	0.347	312	0.039
293	0.175	319	0.110
योग . .	<u>3.524</u>	321	0.138
		328	0.059

**( ब ) शासकीय भूमि**

267	—	0.013
288	—	0.134
	योग . .	<u>0.147</u>
	महायोग . .	<u>3.671</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत “त्योंथर बहाव योजना के माइनर नहर निर्माण” में आने वाली निजी/शासकीय भूमियों एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 257-प्रका.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्वर्कस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

**अनुसूची****(1) भूमि का वर्णन—**

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—जवा
- (ग) ग्राम—बरहुआ उर्फ सींगोटोला-384
- (घ) लगभग क्षेत्रफल —1.579 हेक्टर।

**( अ ) निजी पट्टे की भूमि**

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर)	
(1)	(2)	
	निजी भूमि	शासकीय भूमि
295	0.092	
296	0.101	
299	0.015	
302	0.028	

303	0.062
309	0.056
310	0.022
312	0.039
319	0.110
321	0.138
328	0.059
351	0.018
352	0.014
354	0.001
355	0.115
356	0.057
357	0.055
358	0.033
359	0.045
362	0.001
379	0.058
380	0.084
405	0.040
406	0.050
413	0.046
414	0.045
418	0.011
419	0.061
420	0.058
421	0.042
योग . .	<u>1.556</u>

**( ब ) शासकीय भूमि**

320	—	0.012
353	7	0.011
योग . .	<u>0.023</u>	
महायोग . .	<u>1.579</u>	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत “त्योंथर बहाव योजना के माइनर नहर निर्माण” में आने वाली निजी/शासकीय भूमियों एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. डी. एस. अग्निवंशी, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव।

## विभाग प्रमुखों के आदेश

**आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी**  
**मध्यप्रदेश, भोपाल**  
**(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)**

भोपाल, दिनांक 2 फरवरी 2015

क्र. 789-2781-अका-विप्र-2014.—राज्य शासन द्वारा सामान्य प्रशासन, राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 23 जुलाई, 2014 को प्रश्नपत्र—प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया-तृतीय (राजस्व के मामले में आदेश का लिखा जाना) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:—

क्रमांक	नाम अधिकारी	पदनाम
(1)	(2)	(3)

### उच्चस्तर

#### भोपाल संभाग

1	श्री सोमेश मिश्र	सहायक कलेक्टर
2	सुश्री रजनी सिंह	सहायक कलेक्टर
3	श्री संदीप जी. आर.	सहायक कलेक्टर
4	श्री फ्रैंक नोबल ए.	सहायक कलेक्टर
5	श्री ऋषि गर्ग	सहायक कलेक्टर
6	श्री प्रियंक मिश्रा	सहायक कलेक्टर
7	श्री अनूप कुमार सिंह	सहायक कलेक्टर
8	श्री हर्ष दीक्षित	सहायक कलेक्टर
9	श्री मयंक अग्रवाल	सहायक कलेक्टर
10	श्री अमनवीर सिंह बैंस	सहायक कलेक्टर
11	श्री एस. कृष्ण चैतन्य	सहायक कलेक्टर
12	श्री सतीश कुमार एस.	सहायक कलेक्टर
13	कु. स्वाति जैन	डिप्टी कलेक्टर
14	श्री भविष्य भास्कर	नायब तहसीलदार

#### जबलपुर संभाग

15	कु. अभिनंदन शर्मा	नायब तहसीलदार
16	श्री गणेश प्रसाद बर्मन	राजस्व निरीक्षक
17	श्री रवि शंकर मिश्रा	राजस्व निरीक्षक

#### ग्वालियर संभाग

18	श्री राधवेन्द्र कुमार पाण्डेय	तहसीलदार
19	डॉ. महेश सिंह कुशवाह	नायब तहसीलदार

#### निम्नस्तर

#### भोपाल संभाग

1	कु. सोनिया मीना	सहायक कलेक्टर
2	कु. गरिमा रावत	डिप्टी कलेक्टर
3	श्री आलोक भद्र	राजस्व निरीक्षक
4	श्री कृष्णपाल सिंह बडकरे	राजस्व निरीक्षक

(1)	(2)	(3)
5	श्री दिनेश कुमार साहू	राजस्व निरीक्षक

#### सागर संभाग

6	श्री दीपक कुमार तिवारी	नायब तहसीलदार
7	श्री संजय कुमार गर्ग	नायब तहसीलदार
8	श्री सच्चिता नन्द त्रिपाठी	नायब तहसीलदार
9	श्री मोहित कुमार जैन	नायब तहसीलदार
10	श्री देवेन्द्र कुमार पटैरिया	राजस्व निरीक्षक
11	श्रीमती आरती राणा	पटवारी

#### उज्जैन संभाग

12	श्री शम्भूसिंह सिसोदिया	नायब तहसीलदार
13	श्री सुनील अग्रवाल	राजस्व निरीक्षक

#### इंदौर संभाग

14	श्री गोपाल सिंह वर्मा	तहसीलदार
15	श्री यशपाल मुजाल्दा	नायब तहसीलदार
16	श्री अनिल मंडराह	नायब तहसीलदार
17	श्री चन्द्र कुवंर सिंह	नायब तहसीलदार

#### शहडोल संभाग

18	श्री सनत कुमार सिंह	राजस्व निरीक्षक
----	---------------------	-----------------

#### जबलपुर संभाग

19	श्री नीरज तखरया	नायब तहसीलदार
20	श्री रामप्रकाश वरकड़े	राजस्व निरीक्षक
21	श्री ओमकार प्रसाद बनवासी	राजस्व निरीक्षक
22	श्री गुरुदास प्रसाद मेहरा	राजस्व निरीक्षक
23	श्री कुंवरलाल राउत	राजस्व निरीक्षक
24	श्री सीपतसिंह मर्सकोले	राजस्व निरीक्षक
25	श्री दुलारे लाल परते	राजस्व निरीक्षक
26	श्री प्रसन्न कुमार वर्मा	राजस्व निरीक्षक

#### ग्वालियर संभाग

27	कु. ज्योति राजपूत	नायब तहसीलदार
28	श्री सुधर सिंह प्रजापति	राजस्व निरीक्षक
29	डॉ. मधुलिका सिंह तोमर	नायब तहसीलदार
30	श्रीमती शबाना कुरेशी	राजस्व निरीक्षक

#### होशंगाबाद संभाग

31	कु. अंकिता बाजपेयी	नायब तहसीलदार
32	श्री नितिन कुमार टाले	नायब तहसीलदार
33	श्री रामभरोस सरयाम	पटवारी

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**सुधीर कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी,**

**मध्यप्रदेश शासन**  
**प्रशासन अकादमी**  
**(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)**  
**संशोधित विभागीय परीक्षा का सूचना तथा कार्यक्रम**  
**भोपाल, दिनांक 22 जनवरी 2015**

क्र. 569-8186-अका.-2014-विप्र.—प्रदेश के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए विभागीय परीक्षा उनके विभागों द्वारा निर्धारित की गई हो, जो दिनांक 12-19 जनवरी, 2015 के मध्य संचालित की जानी थी, को पंचायत निर्वाचन एवं नगरीय निकायों के चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए, अब उक्त विभागीय परीक्षाएं, दिनांक 16 मार्च 2015 से 23 मार्च 2015 के मध्य आयुक्त, भोपाल, जबलपुर, इन्दौर, उज्जैन, ग्वालियर, सागर, रीवा, शहडोल एवं नर्मदापुरम होशंगाबाद संभाग द्वारा निर्धारित स्थानों में निर्मांकित कार्यक्रम के अनुसार होंगी:—

स. क्र. (1)	प्रश्न-पत्र का विषय (2)	समय (3)
	16 मार्च, 2015	
1	प्रश्नपत्र-प्रथम दांडिक विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) सामान्य प्रशासन, राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रातः 10.00 से दोपहर 01.00 बजे तक.
2	प्रश्नपत्र-पंजीयन विधि तथा प्रक्रिया-पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (केवल अधिनियम एवं नियमों की (पुस्तकों सहित).	प्रातः 10.00 से दोपहर 01.00 बजे तक.
3	प्रश्नपत्र-विधि तथा प्रक्रिया-उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)	प्रातः 10.00 से दोपहर 01.00 बजे तक.
4	प्रश्नपत्र-विधि तथा प्रक्रिया-वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये (केवल नियमों की पुस्तकों सहित).	प्रातः 10.00 से दोपहर 01.00 बजे तक.
5	प्रश्नपत्र-पहला सहकारिता सामान्य (बिना पुस्तकों के) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.	प्रातः 10.00 से दोपहर 01.00 बजे तक.
59	प्रश्नपत्र-विद्युत् संबंधी विधियां-ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये	प्रातः 10.00 से दोपहर 01.00 बजे तक.
6	प्रश्नपत्र-दूसरा दांडिक विधि तथा प्रक्रिया (दाण्डिक मामलों में आदेश/निर्णय का लिखा जाना) सामान्य प्रशासन, राजस्व व भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 2.00 बजे से 5.00 बजे तक.
7.	प्रश्नपत्र-दूसरा सहकारिता तथा सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.	दोपहर 2.00 बजे से 5.00 बजे तक.
8	प्रश्नपत्र-समाज कल्याण (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 2.00 बजे से 5.00 बजे तक.
60	प्रश्नपत्र-भू-योजन तथा विद्युत् सुरक्षा-ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 2.00 बजे से 5.00 बजे तक.

(1)

(2)

(3)

## 17 मार्च, 2015

- 9 प्रश्नपत्र-पहला प्रशासनिक, राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) भाग-ए, आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.
- 10 प्रश्नपत्र-पहला प्रशासनिक राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) सामान्य प्रशासन राजस्व, भू-अभिलेख आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये. भाग-बी
- 11 प्रश्नपत्र-पहला प्रशासनिक, राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) सामान्य प्रशासन, राजस्व, भू-अभिलेख एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये-भाग-सी.
- 12 प्रश्नपत्र-उद्योग विभाग संबंधी अधिनियम तथा नियम (पुस्तकों सहित) उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये.
- 13 प्रश्नपत्र-खनिज प्रबंध (पुस्तकों सहित) खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिये.
- 14 प्रश्नपत्र प्रथम लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये.
- 61 प्रश्नपत्र-विद्युत् संस्थापनाएं-ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये.
- 15 प्रश्नपत्र-दूसरा प्रशासनिक, राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित ) सामान्य प्रशासन, राजस्व, आदिम जाति कल्याण एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.
- 16 प्रश्नपत्र-प्रक्रिया, विकास योजनाओं, राज्यों के साधनों, राज्य के नियम, पुस्तिकाओं आदि का ज्ञान (पुस्तकों सहित) उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये.
- 17 प्रश्नपत्र-तीसरा बैंकिंग (बिना पुस्तकों के) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.
- 18 प्रश्नपत्र-समाज शिक्षा (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये.
- 19 प्रश्नपत्र द्वितीय-लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये.
- 62 प्रश्नपत्र-लेखा व स्थापना-ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये.
20. प्रश्नपत्र तीसरा-प्रशासनिक, राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया-राजस्व के मामले में आदेश का लिखा जाना सामान्य प्रशासन, राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.

## 18 मार्च, 2015

प्रातः 10.00 से दोपहर  
01.00 बजे तक.

दोपहर 2.00 बजे से  
शाम 5.00 बजे तक.

प्रातः 10.00 से दोपहर  
01.00 बजे तक.

(1)	(2)	(3)
21	प्रश्नपत्र-पुस्तपालन तथा कर निर्धारण (पुस्तकों सहित) वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रातः 10.00 से दोपहर 01.00 बजे तक.
22	प्रथम-वन विधि (बिना पुस्तकों के) सहायक वन संरक्षकों के लिये.	प्रातः 10.00 से दोपहर 01.00 बजे तक.
23	प्रश्नपत्र पहला -प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) वन विभाग के वन क्षेत्रपालों के लिये.	प्रातः 10.00 से दोपहर 01.00 बजे तक.
24	प्रश्नपत्र-“व्यवहारिक परीक्षा” गृह (पुलिस) विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रातः 10.00 से दोपहर 01.00 बजे तक.
63	प्रश्नपत्र-स्वच गेयर तथा संरक्षण-ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये	प्रातः 10.00 से दोपहर 01.00 बजे तक.
25	प्रश्नपत्र-कार्यालयीन संगठन तथा प्रक्रिया-वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
26	प्रश्नपत्र-सिविल विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) सामान्य प्रशासन राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
27	प्रश्नपत्र- “पुलिस शाखा” गृह (पुलिस) विभाग के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के).	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
28	प्रश्नपत्र-दूसरा सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) सहायक वन संरक्षकों के लिये.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
29	प्रश्नपत्र तीसरा-सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) वन क्षेत्रपालों के लिये.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
30	प्रश्नपत्र-स्थानीय शासन अधिनियम तथा नियम (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
31	प्रश्नपत्र-चौथा प्रश्नपत्र सहकारी लेखा तथा परीक्षण (बिना पुस्तकों के) भाग-1, लेखा तथा भाग-2 सहकारिता लेखा परीक्षण, सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
32	प्रश्नपत्र-समाज शास्त्र (पुस्तकों सहित) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
64	प्रश्नपत्र-विद्युत रोधन समन्वय तथा परिसंकट ग्रस्त क्षेत्र इंसूलेशन को ऑर्डरेशन व हैजार्ड्स एरिया) ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.

(1)	(2)	(3)
<b>19 मार्च, 2015</b>		
33	प्रश्नपत्र-प्रथम लेखा (बिना पुस्तकों के) जिलाध्यक्षों, उप जिलाध्यक्षों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये।	प्रातः 10.00 से दोपहर 01.00 बजे तक।
34	प्रश्नपत्र प्रथम-लेखा (बिना पुस्तकों के) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये।	प्रातः 10.00 से दोपहर 01.00 बजे तक।
35	प्रश्नपत्र प्रथम-लेखा (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये।	प्रातः 10.00 से दोपहर 01.00 बजे तक।
36	प्रश्नपत्र-“न्यायिक शाखा” गृह (पुलिस) विभाग के अधिकारियों के लिये। (बिना पुस्तकों के)।	प्रातः 10.00 से दोपहर 01.00 बजे तक।
37	प्रश्नपत्र-लेखा (पुस्तकों सहित) उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारियों के लिये।	प्रातः 10.00 से दोपहर 01.00 बजे तक।
38	प्रश्नपत्र-लेखा (पुस्तकों सहित) आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अधिकारियों के लिये।	प्रातः 10.00 से दोपहर 01.00 बजे तक।
39	प्रश्नपत्र-लेखा (पुस्तकों सहित) उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये।	प्रातः 10.00 से दोपहर 01.00 बजे तक।
40	प्रश्नपत्र-लेखा (पुस्तकों सहित) खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिये।	प्रातः 10.00 से दोपहर 01.00 बजे तक।
41	प्रश्नपत्र-लेखा (पुस्तकों सहित) जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये।	प्रातः 10.00 से दोपहर 01.00 बजे तक।
66	प्रश्नपत्र-प्रथम लेखा (बिना पुस्तकों के) महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के लिये।	प्रातः 10.00 से दोपहर 01.00 बजे तक।
42	प्रश्नपत्र द्वितीय-लेखा (पुस्तकों सहित) उप जिलाध्यक्षों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये।	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक।
43	प्रश्नपत्र द्वितीय-लेखा (पुस्तकों सहित) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये।	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक।
44	प्रश्नपत्र द्वितीय-लेखा (पुस्तकों सहित) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये।	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक।
67	प्रश्नपत्र द्वितीय-लेखा (पुस्तकों सहित) महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के लिये।	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक।

(1)	(2)	(3)
20 मार्च, 2015		
45	प्रश्नपत्र-लेखा भाग-1 (बिना पुस्तकों के) सिविल पशु चिकित्सा सेवा, पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रातः 10.00 से दोपहर 11.00 बजे तक.
46	प्रश्नपत्र प्रथम-लेखा भाग-1 मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रातः 10.00 से दोपहर 11.00 बजे तक.
47	प्रश्नपत्र-लेखा (पुस्तकों सहित) कृषि सेवा कार्यपालन प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिये.	प्रातः 10.00 से दोपहर 01.00 बजे तक.
48	प्रश्नपत्र-विधि तथा प्रक्रिया प्रथम (बिना पुस्तकों के) डेयरी विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रातः 10.00 से दोपहर 01.00 बजे तक.
49.	प्रश्नपत्र द्वितीय-मध्यप्रदेश के मूलभूत तथ्य और ग्रामीण विकास (पुस्तकों सहित) जनसंरक्षण विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रातः 10.00 से दोपहर 01.00 बजे तक.
50	प्रश्नपत्र द्वितीय-लेखा (बिना पुस्तकों के) वन विभाग के वनक्षेत्रपालों के लिये.	प्रातः 10.00 से दोपहर 01.00 बजे तक.
65	प्रश्नपत्र-पंचायत राज प्रशासन विधि तथा प्रक्रिया-जिलाध्यक्षों, उप जिलाध्यक्षों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों एवं भू-अभिलेख एवं पंचायत विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रातः 10.00 से दोपहर 01.00 बजे तक.
68	प्रश्नपत्र तृतीय-महिला एवं बाल कल्याण-महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रातः 10.00 से दोपहर 01.00 बजे तक.
51	प्रश्नपत्र-लेखा भाग-2 (पुस्तकों सहित) सिविल पशु चिकित्सा सेवा, पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक.
52	प्रश्नपत्र-लेखा प्रथम भाग-2 मत्स्यपालन विभाग के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक.
53	प्रश्नपत्र-सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये किसी मामले में आदेश या प्रतिवेदन लिखने की व्यवहारिक परीक्षा, सहकारिता विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित).	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
54	प्रश्न-पत्र तृतीय— प्रक्रिया तथा लेखा (पुस्तकों सहित) सहायक वन संरक्षकों के लिये.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
55	प्रश्न-पत्र द्वितीय— लेखा (बिना पुस्तकों के) कृषि सेवा कार्यपालन प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
56	प्रश्न-पत्र—लेखा तथा प्रक्रिया -द्वितीय (पुस्तकों सहित) डेयरी विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.

(1)	(2)	(3)
57	प्रश्न-पत्र तृतीय—अनुसूचित जाति तथा आदिम जाति विकास जनसम्पर्क विभाग के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
69	प्रश्न-पत्र चतुर्थ—पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, महिला एवं बाल विकास (पुस्तकों सहित) विभाग के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.

23 मार्च, 2015

58	हिन्दी, निबंध तथा हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद सभी विभागों के अधिकारियों के लिये.	प्रातः 10.00 से दोपहर 12.00 बजे तक.
----	--	-------------------------------------

#### नोट :—

- उम्मीदवारों को सूचित किया जावे कि जिन प्रश्नपत्रों में पुस्तकों की सहायता लिया जाना है, उन्हें विभागीय परीक्षा के लिये जिलाध्यक्ष कार्यालय से पुस्तकें नहीं दी जावेगी। उन्हें अपनी स्वयं की पुस्तकें ले जाना होगी।
- सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को, जो परीक्षा में सम्मिलित होने के इच्छुक हों, अपने नाम उचित मार्ग द्वारा सीधे अपने विभागाध्यक्षों को भेजना चाहिये। परीक्षार्थी राजपत्रित/अराजपत्रित है, का स्पष्ट उल्लेख आवेदन-पत्र में भरें।
- सामान्य प्रशासन विभाग (अनुसूचित जाति आदिवासी सेल के) ज्ञापन क्र. 1-15-77-1-अ. स.-जनजाति सेवा, दिनांक 15 फरवरी 1978 के अनुसार विभागीय परीक्षाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को उत्तीर्ण होने के लिये 10 प्रतिशत अंकों तक छूट दी जाती है। ये छूट अखिल भारतीय सेवा से संबंधित परीक्षार्थियों पर लागू नहीं होगी। परीक्षार्थी तत्संबंधी अपना प्रमाण-पत्र अपने विभागाध्यक्षों को प्रस्तुत करेंगे। इन प्रमाण-पत्रों को आर. सी. वी. पी. नरोन्हा, प्रशासन अकादमी, म. प्र., भोपाल को नहीं भेजा जावे। संबंधित विभागाध्यक्ष परीक्षा में भाग लेने वाले व्यक्तियों की सूची के साथ अनुसूचित जाति/जनजाति संबंधी प्रमाण-पत्र संबंधित परीक्षा केन्द्रों के आयुक्तों को दिनांक 15 फरवरी 2015 तक भेजेंगे।
- जिन परीक्षार्थियों द्वारा प्रमाण-पत्र विभागाध्यक्षों के माध्यम से आयुक्तों को प्रस्तुत नहीं किये जावेंगे, उन्हें इस प्रकार की सुविधा प्राप्त नहीं होगी। यह प्रमाण-पत्र आयुक्त कार्यालय में रखे जावेंगे।
- परीक्षा केन्द्र आयुक्तों से निवेदन है कि परीक्षा में सम्मिलित जिन परीक्षार्थियों द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रमाण-पत्र उन्हें प्राप्त होंगे उनका उल्लेख शासन को भेजे जाने वाली सूची में अनिवार्य रूप से करें। उसके आधार पर ही उन्हें अंकों में छूट प्रदाय की जा सकेगी। कृपया स्पष्ट उल्लेख करें कि परीक्षार्थी सामान्य या अनुसूचित जाति/जनजाति से संबंधी है। एस.सी./एस.टी. दर्शकर कोष्टक में (प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया) जैसा भ्रामक उल्लेख परीक्षार्थियों की सूची में न किया जाय।

सुधीर कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी।